



## **Jamna Auto Industries Ltd.**

Date: August 05, 2025

To,  
BSE Limited  
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G- Block,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai- 400001 Maharashtra

**BSE Code: 520051**

To,  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai - 400051, Maharashtra

**NSE Code: JAMNAAUTO**

**Subject–Notice for transfer of equity shares and dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the requirements of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisements published in The Financial Express- English (Delhi and Chandigarh Edition) and Jansatta- Hindi (Delhi and Chandigarh Edition) regarding the unclaimed dividend and equity shares liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund Demat Account for the FY 2017-18 (Final Dividend).

Kindly take the above information on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

**For Jamna Auto Industries Limited**

**Praveen Lakhera**  
**Company Secretary & Head-Legal**  
Encl: As above



## BOHRA INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identification Number: L24117RJ1996PLC012912

Registered Office: 301, Anand Plaza, University Road, Udaipur, Rajasthan, India, 313 001;  
Tel: +91-294-2429513 | Email: bti@bohraindustries.com | Website: www.bohraindustries.com

This Advertisement is being issued by, Saffron Capital Advisors Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of Mark AB Capital Investment India Private Limited ("Acquirer") to acquire upto 70,19,667 (Seventy Lakh Nineteen Thousand Six Hundred and Sixty Seven) Fully paid-up Equity shares of face value of ₹ 10/- each for cash at a price of ₹ 32/- (Rupees Thirty Two Only) per Equity Share ("Offer Price") to the Public Shareholders of Bohra Industries Limited ("Target Company") pursuant to and in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") ("Offer" Or "Open Offer").

## Kind Attention- Physical Shareholders of Bohra Industries Limited

Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form and who have not received the physical copy of Letter of Offer ("LOF") for any reason whatsoever, may send request to Registrar & Transfer Agent to the Open Offer, Bigshare Services Private Limited at [openoffer@bigshareonline.com](mailto:openoffer@bigshareonline.com) and avail soft copy of the LOF. Alternatively, Eligible Shareholders may also download the soft copy of LOF from the website of SEBI's website [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) or Manager to the Offer, [www.saffronadvisors.com](http://www.saffronadvisors.com) or NSE, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). Eligible Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" at page no. 39 of the LOF in relation to inter alia the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or DPS and/or LOF and/or Corrigendum. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER	REGISTRAR TO THE OFFER
<b>SAFFRON</b> ***** energising ideas <b>SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED</b> 605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400059, Maharashtra, India. Tel No.: +91-22-49730394 Email id: <a href="mailto:openoffers@saffronadvisors.com">openoffers@saffronadvisors.com</a> Website: <a href="http://www.saffronadvisors.com">www.saffronadvisors.com</a> Investor Grievance email id: <a href="mailto:investorgrievance@saffronadvisors.com">investorgrievance@saffronadvisors.com</a> SEBI Registration Number: INM000011211 Validity: Permanent Contact Person: Saurabh Gaikwad/Yashi Srivastava	<b>BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED</b> Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093. Tel: +91 022-62638200 Fax: +91 022 - 62638299 Email id: <a href="mailto:Openoffer@bigshareonline.com">Openoffer@bigshareonline.com</a> Website: <a href="http://www.bigshareonline.com">www.bigshareonline.com</a> SEBI Registration Number: INR000001385 Validity: Permanent Contact Person: Mr. Maruti Eate
Place: New Delhi Date: August 04, 2025	

## SYSCHEM (INDIA) LIMITED

Regd. Office : Village BARGODAM, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula (Haryana)  
Website : [www.syschem.in](http://www.syschem.in) CIN : L24219HR1993PLC032195

## UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(Rupees In Lakh)

PARTICULARS	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations	12,676.35	13,876.32	10,216.09	38,627.34
Profit/(Loss) before exceptional Items and Tax	167.35	101.18	13.67	101.16
Profit before tax	167.35	101.18	13.67	101.16
Share of Profit/(Loss) of associates and joint ventures	—	—	—	—
Other Comprehensive Income/(Expense) (net of tax)	—	—	—	—
Items that will not be reclassified to Profit & Loss	—	—	—	—
Items that will be reclassified to Profit & Loss	—	—	—	—
Total Comprehensive Income for the period (7 + 9) (Comprising Profit & Other Comprehensive Income for the period)	167.35	46.03	13.67	46.01
Basic and Diluted Earning Per Share on Net Profit after Tax (in Rupees)	0.38	0.112/0.092	0.03	0.115/0.109
Paid up Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per share)	4,351.30	4,351.30	3,986.30	4,351.30

## NOTE :

- The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 12th of Aug 2024 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
- The Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant Rules thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- Segment Reporting as defined in Indian Accounting Standard 108 is not applicable as the Company is engaged in pharmaceutical products (API) segment.
- The figures have been regrouped / rearranged, wherever necessary, in order to make them comparable with the figures for the current period.

PLACE : CHANDIGARH  
DATED : 04/08/2025For and on behalf of  
(RANJAN JAIN)  
Managing Director  
DIN : 00635274

## PEACH AND PEPPERS LLP

LLPIN: ACB-9838  
Regd. Office: E-112, SPAZE PRIVY,  
SECTOR-72 NEAR PARK, GURGAON,  
SHIVAJI NAGAR, HARYANA-122001  
Email id: [peachpeppers41@gmail.com](mailto:peachpeppers41@gmail.com)  
Advertisement to be published in the newspaper  
for the change in registered office of the LLP  
from one State to another  
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
REGISTRAR OF COMPANIES, HARYANA  
In the matter of sub-section (3) Section 13 of the  
Limited Liability Act Partnership, 2008 and Rule 17 of  
the Limited Liability Partnership Act, 2009AND  
In the matter of PEACH AND PEPPERS LLP  
(LLPIN: ACB-9838) having its registered office at E-  
112, Spaze Privy, Sector-72 Near Park, Gurgaon,  
Shivaji Nagar, Haryana-122001 .....Petitioner  
Notice is hereby given to the General Public that  
PEACH AND PEPPERS LLP proposes to make  
application to the Central Government under section  
13(3) of the LLP Act, 2008 seeking Permission to  
change its Registered Office from "State of  
Haryana" to the "State of Uttar Pradesh".  
Any person whose interest is likely to be affected by  
the proposed change of the registered office of the  
LLP may deliver either on the MCA-21 portal  
([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or  
cause to be delivered or send by registered post of  
his/her objections supported by an affidavit stating  
the nature of his/her interest and grounds of  
opposition to the Registrar of Companies Delhi  
within Twenty one (21) days of the date of publication  
of the notice with a copy to the applicant LLP at its  
registered office at the address mentioned below:  
Ground Floor (Front Side), Bld-15, Sector-116, Noida,  
Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301.  
For and on behalf of Board of  
PEACH AND PEPPERS LLP Sd/-  
ASHWANI GUPTA  
Designated Partner  
DIN: 10235500  
Date: 31/07/2025  
Place: DELHINOTICE OF LOSS OF  
SHARE CERTIFICATE(S)Reg. Off: Plot No. 3(SP), III Main  
Road, Ambattur Industrial Estate,  
Chennai-600058  
E-mail: [cvc5.info.india@zf.com](mailto:cvc5.info.india@zf.com)NOTICE is given that the following  
share certificate(s) issued by the company  
is/are stated to have been lost or misplaced or  
stolen and the registered holder(s)/the legal  
heir(s) of the registered holder(s) thereof  
have applied to the company for the issue of  
duplicate share certificate(s). Folio-200011,  
Share Certificate No.-4641, No. Of Shares:  
166 Name of registered share holder:  
ZAKIA YOUSUF Distinctive Nos.  
12463653-12463818 The public are hereby  
warned against purchasing or dealing in any  
way, with the above share certificate(s)  
should lodge such claim(s) with the company  
at its registered office at the address given  
above within 15 days of publication of this  
notice, after which no claim will be  
entertained and the company will proceed to  
issue duplicate share certificate(s).Name of the Holder / Applicant  
JAMAL YOUSUF  
Place: Kolkata, Date: 05.08.2025

## PUBLIC NOTICE

Advertisement to be published in the newspaper  
for change of registered office of the LLP from  
one state to another  
In the matter of Section 13 of the Limited Liability  
Partnership Act, 2008 read with Rule 17 of  
LLP (Incorporation of LLP) Rules, 2009  
In the matter of  
**BOOK MY PROPERTY LLP**  
having its registered office at G-2, Plot No. 02,  
Ground Floor, Aggarwal Arcade, Block C/J, Local  
Shopping Center, Pitampura, New Delhi-110 034  
Notice is hereby given to the General Public that  
the LLP proposes to make application to the  
Registrar under section 13 of the Liability  
Partnership Act, 2008 seeking confirmation of  
change in registered office of the LLP in terms of  
the Resolution passed at the Meeting held on  
**Monday, 04<sup>th</sup> day of August, 2025** to enable  
the LLP to change its Registered Office from  
"National Capital Territory of Delhi" to the  
"State of Haryana".  
Any person whose interest is likely to be affected  
by the proposed change of the registered office  
of the LLP may deliver either on the **MCA-21**  
**portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in))** by filing investor  
complaint form or cause to be delivered or  
registered post of his/her objections supported  
by an affidavit stating the nature of his/her interest  
and grounds of opposition to the office of  
Registrar of Companies at 04<sup>th</sup> Floor, IFCI Tower,  
61, Nehru Place, New Delhi-110 019 within 21  
days of the date of publication of this notice with  
a copy to the applicant LLP at its registered office  
at the address as mentioned above.  
For and on behalf of  
BOOK MY PROPERTY LLP Sd/-  
(Jatin Mangani)  
(Designated Partner)  
(DIN : 09431349)Date : 04.08.2025  
Place : New Delhi

## SYSCHEM (INDIA) LIMITED

CIN: L24219HR1993PLC032195, Regd. Office: Village Bargodam, Tehsil Kalka,  
Distt. Panchkula (Haryana) Website: [www.syschem.in](http://www.syschem.in), Phone no: 91-172 5070471

## PUBLIC NOTICE OF CONVENING 32nd ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

The 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Syschem (India) Limited ("the Company") will be held on Thursday, 04th September, 2025 at 3:30 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with General Circular Nos. 20/2020 Dated 5th May 2020, 2/2022 dated 5th May 2022 and 10/2022 dated 28th December 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023, September 25, 2023 and 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard and latest being SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2023/167, 7 October 2023 and 3 October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice Dated 4th August, 2025, calling the AGM.

The 32nd AGM of the Company will be held through VC / OAVM facility provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to transact the business set out in the Notice convening the AGM. The members can attend and participate in the AGM only through VC / OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and financial statements for the financial year 2024-2025, etc. will be sent electronically to all the Members of the Company whose name appears, in the Register of Members as on 01st August, 2025 and whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent/Depositories. Pursuant to the above circulars, the requirement of sending physical copies of the Annual report has been dispensed with. However, the Company shall send a physical copy of the Annual Report to those Members who specifically request for the same at mailing id [shikhakataria@syschem.in](mailto:shikhakataria@syschem.in) mentioning their Folio No./DP ID and Client ID. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at [www.syschem.in](http://www.syschem.in) and on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). Members who have not registered their email-id and/or Bank details are requested to register the same by following the procedure given below:

1. In case Physical Holding: Send a duly signed request letter to the Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at, Beetal House, 99, Madangir behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, Delhi - 110 062 or email at [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com) and provide the following details for registering email address: (a) Folio No., (b) Name or shareholder, (c) Copy of the share certificate (front and back), (d) Copy of PAN card (self-attested), (e) Copy of AADHAR (self-attested) Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account Detail: a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, (b) the Bank Account type, (c) Bank Account Number (d) MICR Code Number (e) IFSC Code, and (n) Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder.

2. In case Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advise by your DP.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com). You may also contact Mrs. Shikha Kataria, Company Secretary of the Company at [shikhakataria@syschem.in](mailto:shikhakataria@syschem.in).

Place: Chandigarh  
Date: 05.08.2025By Order of the Board of Directors  
for Syschem (India) Limited  
(Sd/-)  
(Ranjan Jain)  
MANAGING DIRECTOR

## CAPRI

CIN No.: L65921MH1994PLC173469

Regd. Office: 502, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg,  
Lower Parel, Mumbai 400013  
Website: [www.caprirooms.in](http://www.caprirooms.in) Tel: +91 22 43548100; Fax: +91 22 40888160

## NOTICE

NOTICE is hereby given that the Company would be closing the branch at the following locations:

Name of Branch	Address	Date of Closing	Purpose	Arrangements being made to service the customers
Noida	A-133, 2nd Floor, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh - 201301	14th November, 2025	Shifting to other location in same city	Customer arrangements will be made in new branch also.
Bareilly	2nd Floor, GKS Palace, Ayub Khan-Choupla Road, 63-64, Civil Lines, Bareilly, Uttar Pradesh -243001	14th November, 2025	Shifting to other location in same city	Customer arrangements will be made in new branch also.

for Capri Global Capital Limited

Sd/-  
(Yashesh Pankaj Bhatt)  
Company Secretary

## JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana  
Corporate Office: Unit No. 408, 4th Floor, Tower-B, Vatika Mindscapes, Sector-27D,  
NH2, Faridabad-121003(HR.)Tel. 0129-4006885; Website: [www.jaispring.com](http://www.jaispring.com)Email Id: [investor.relations@jaispring.com](mailto:investor.relations@jaispring.com)

## NOTICE

Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2017-18 (Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Notice is hereby given that pursuant to Section 124(5) & (6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 5 & 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required to transfer the dividend which remains unclaimed or unpaid for a period of seven years, to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government.

The Company is also required to transfer all such shares in respect of which dividend(s) has not been encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to IEPF Demat Account. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF.

Accordingly, the following is liable to be transferred to IEPF Account:

Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Date of Claim to be forwarded to the Company
Unclaimed Dividend FY 2017-18 (Final)	October 30, 2025	On or before October 13, 2025

The individual notices have already been sent to the respective shareholders, whose dividend along with shares are liable to be transferred to IEPF authority during the FY 2025-26 for taking appropriate actions. The Company has also uploaded details of shareholders whose shares and dividends are due for transfer to IEPF Authority on its website at <https://www.jaispring.com>. If you have not claimed your dividend for the last seven consecutive years and the amount(s) are lying unpaid/unclaimed against your folio/demat account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents:

- A formal letter duly signed by all the joint holders, if any;
- Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof;
- Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.; and
- KYC forms as applicable in accordance with the recent SEBI Circular. The forms/formats are available at the Company's website [www.jaispring.com](http://www.jaispring.com) under Investors Relations tab> Corporate Governance> KYC Update.

Please send the above documents to the Company or its Registrar &amp; Share Transfer Agent (i.e. M/s. Skyline Financial Services Private Limited) at the address mentioned below:-

To Company	To Registrar & Share Transfer Agent
Jamna Auto Industries Limited 4th Floor, Tower B, Vatika Mindscapes, Mathura Road Sector-27D, Faridabad-121003, Haryana Contact No. 0129-4006885 Email: <a href="mailto:investor.relations@jaispring.com">investor.relations@jaispring.com</a>	Skyline Financial Services Private Limited D-153A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 Ph. No.: 011-40450193-97 Email: <a href="mailto:parveen@skylinert.com">parveen@skylinert.com</a> ; <a href="mailto:grievances@skylinert.com">grievances@skylinert.com</a> Contact Person: Mr. Parveen Sharma

Shareholders are requested to note that if dividend not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares and dividend to the IEPF Account by the aforesaid due date without any further notice.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares, Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Demat Account.

Please note that the transfer of dividend and shares to the IEPF Account, shareholders may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount and the shares by making online application to IEPF in the prescribed Form IEPF-5 available on the website of MCA V3 viz. [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) and sending a duly signed physical copy of the same to the Company along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5.

For Jamna Auto Industries Ltd.

Sd/-  
Place: Faridabad  
Date: August 04, 2025  
Praveen Lakhera  
Company Secretary & Head-LegalEscorts Kubota Limited  
Escorts Kubota Limited

## Extract of Unaudited Standalone And Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2025

Sl. No.	Particulars	Standalone Results				Consolidated Results			
		3 Months ended		Year ended		3 Months ended		Year ended	
		June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025	June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
		Unaudited	Audited*	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited*	Unaudited	Audited
1	Total revenue from operations	2,483.36	2,430.30	2,556.31	10,186.96	2,500.05	2,444.88	2,573.73	10,243.88
2	Net Profit for the period from continuing operations (before Tax and exceptional Items)	417.86	358.35	350.21	1,366.59	413.94	352.61	348.02	1,352.68
3	Net Profit for the period from continuing operations before tax (after exceptional Items)	493.85	331.27	350.21	1,339.51	489.93	350.94	348.02	1,351.01
4	Net Profit for the period from continuing operations after tax (after exceptional Items)	372.61	250.71	266.19	1,110.03	369.47	271.62	264.36	1,124.06
5	Net Profit from discontinued operations after tax	1,027.63	46.80	37.32	140.89	1,027.63	46.80	37.32	140.89
6	Total Net Profit for the Period (continuing and discontinued operations)	1,400.24	297.51	303.51	1,250.92	1,397.10	318.42	301.68	1,264.95
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,401.04	297.01	304.73	1,249.27	1,398.22	318.22	302.82	1,263.60
8	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	1,401.04	297.01	304.73	1,249.27	1,398.23	318.22	302.79	1,263.59
9	Equity Share Capital	111.88	111.88	110.50	111.88	111.88	111.88	110.50	111.88
10	Other Equity				10,268.34				10,254.92
11	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) of ₹ 10 each:								
(1) Basic (₹)		127.29	27.05	27.63	113.77	127.01	28.96	27.46	115.04
(2) Diluted (₹)		127.25	27.04	27.60	113.70	126.96	28.94	27.43	114.98

\* Refer note 2

## Notes:

- The above standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2025 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on August 04, 2025.
- The figures for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures up to the third quarter of years ended March 31, 2025.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same are available on the Stock Exchanges websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Company's website [www.escortskubota.com](http://www.escortskubota.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below:

Place : Faridabad  
Date : August 04, 2025

## Escorts Kubota Limited

Registered Office - 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003, Haryana, India  
Tel.: +91-129-2250222 | E-mail: [corp.secretarial@escortskubota.com](mailto:corp.secretarial@escortskubota.com) | Website: [www.escortskubota.com](http://www.escortskubota.com)  
Corporate Identification Number L74899HR1944PLC039088

For Escorts Kubota Limited

Nikhil Nanda  
(Chairman and Managing Director)







ASBA has to be availed by all the investors. UPI may be availed by (i) Individual Investors Portion. (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to Rs. 5,00,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section **"Issue Procedure"** on page no. 297 of the Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=35> and <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=43>, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in). UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Banks for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018 as amended. For Issue related queries, please contact the BRLMs at their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail Id: [upi.ip@npci.org.in](mailto:upi.ip@npci.org.in).

In case of any revisions in the Price, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Offer is being made through the Fixed Price Issue, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") read with Regulation 252 of SEBI ICDR Regulations, 2018, the Offer is being made for at least 25% of the post-offer paid-up Equity Share capital of our Company. The Offer is being made under Regulation 229(2) of Chapter IX of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 via fixed issue process. All Bidders For details, see "Issue Procedure" beginning on page no. 297 of the Prospectus.

**Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the Repositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay reselling from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.**

**CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS:** For information on the main objects and other objects of our Company, see **"Our History and Certain Corporate Matters"** on page no. 179 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section **"Material Contracts and Documents for Inspection"** on page no. 339 of the Prospectus.

**LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA:** Limited by shares.

**AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE:** As on the date of Prospectus, the Authorized share Capital of the Company is Rs. 15,00,00,000/- (Rupees Fifteen Crores Only) divided into 1,50,00,000 (One Crore and Fifty Lakhs Only) Equity Shares of face value of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the issue Rs. 10,46,55,460.00/- (Rs. Ten Crores Forty-Six Lakhs and Fifty-Five Thousand Four Hundred and Sixty Only) divided into 1,04,65,546 (One Crore Four Lakhs Sixty-Five Thousand Five Hundred and Forty-Six Only). For details of the Capital Structure, see **"Capital Structure"** on the page no. 73 of the Prospectus.

**NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:** Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Ms. Nishakumari Vicky Agrawal- 100 equity shares, Ms. Dabhi Dharmistaben Y- 100 equity shares, Mr. Vishnu Kumar- 100 equity shares, Mr. Vicky Mahadev Agrawal- 100 equity shares, Mr. Dabhi Vipul Gobarabhai - 100 equity shares, Ms. Prajapati Hetalben Girdharilal - 9,400 equity shares and Mr. Girdharilal Prajapat - 100 equity shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see **"History and Certain Corporate Matters"** on page no. 179 of the Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see **"History and Certain Corporate Matters"** on page no. 179 of the Prospectus.

**LISTING:** The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME platform of NSE ("NSE Emerge"). Our Company has received an "In- principle" approval from the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated May 07, 2025. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Prospectus has been submitted for registration to the ROC on August 04, 2025 and Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"):** Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, The Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page no. 276 of the Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ("NSE EMERGE") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

**GENERAL RISK:** Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have

not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to **"Risk Factors"** on page no. 30 of the Prospectus.

**TRACK RECORD OF LEAD MANAGER:** The LM associated with the Issue has handled 11 Public Issues in the past three years out of which 3 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date

Name of LM	Total Issue in last 3 years	Issue closed below IPO Price on listing date
Fast Track Finsec Private Limited	0	11
		3

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <b>Fasttrack Finsec</b> Category-I Merchant Banker	 <b>CAMEO</b>	<b>Ms. Sashi Kala Bhutra,</b> Company Secretary & Compliance Officer <b>Address:</b> : 05, S, No-245/B, Plot-19, T.P.S. 56, Free Way Trade Center, Nr. A-One Hotel, N.H.-8, Narol Gam, Narol, Ahmaddabad City, Daskroi, Gujarat, India, 382405 <b>Tel.:</b> +91 87808 46963   <b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@medistephc.com">info@medistephc.com</a> <b>Website:</b> <a href="http://www.medistephc.com">www.medistephc.com</a>
<b>FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED</b> <b>Address:</b> Office No. V-116, 1 <sup>st</sup> Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 <b>Tel:</b> +91 11 43029809; <b>Email:</b> <a href="mailto:mb@ftfinsec.com">mb@ftfinsec.com</a> <b>Contact Person:</b> Ms. Sakshi <b>Website:</b> <a href="http://www.ftfinsec.com">www.ftfinsec.com</a> <b>SEBI registration number:</b> INM000012500 <b>CIN:</b> U65191DL2010PTC200381	<b>CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED</b> <b>Address:</b> "Subramaniam Building", No. 1, Club House Road, Chennai-600002 <b>SEBI Registration No.:</b> INR000003753 <b>Contact Person:</b> Ms. K. Sreepriya <b>Email:</b> <a href="mailto:ipo@cameoindia.com">ipo@cameoindia.com</a> <b>Website:</b> <a href="http://www.cameoindia.com">www.cameoindia.com</a> <b>Tel No:</b> +91-44-40020700/28460390 <b>CIN:</b> U74899DL1995PTC071324	<b>Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.</b>
<b>AVAILABILITY OF PROSPECTUS:</b> Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the website of the SEBI at <a href="http://www.sebi.gov.in">www.sebi.gov.in</a> , website of company at <a href="http://www.medistephc.com">www.medistephc.com</a> , the website of the Lead Manager to the Issue at <a href="http://www.ftfinsec.com">www.ftfinsec.com</a> , and websites of stock exchange at <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> . <b>AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS:</b> A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, LM and NSE at <a href="http://www.medistephc.com">www.medistephc.com</a> , <a href="http://www.ftfinsec.com">www.ftfinsec.com</a> and <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> . <b>AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATI ON FORMS:</b> Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Medistep Healthcare Limited (Telephone: 91 87808 46963) <b>Lead Manager:</b> Fast Track Finsec Private Limited (Telephone: +91-11-43029809). Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE ( <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> ) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at <a href="http://www.sebi.gov.in">www.sebi.gov.in</a> . <b>SYNDICATE MEMBER:</b> N.A. <b>BANKER TO THE ISSUE/ ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK:</b> ICICI Bank Limited. <b>SPONSOR BANKS:</b> ICICI Bank Limited <b>UPI:</b> UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism. <b>All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.</b>		

Place: Ahmedabad

Date: August 04, 2025

**Disclaimer:** - Medistep Healthcare Limited proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Prospectus dated August 04, 2025 has been filed with the Registrar of Companies, Ahmedabad and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of the SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), website of NSE Emerge at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and is available on the websites of the LM at [www.ftfinsec.com](http://www.ftfinsec.com). Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

## क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड

सीआईएन : U24239HR2002PLC129635  
पंजीकृत कार्यालय : मॅस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, ब्लॉक बी, सुरांत लोक, फेज १, गुरुग्राम, हरयाणा, भारत - १२२ ००१

ई-मेल : [secretarialcrl@maxhealthcare.com](mailto:secretarialcrl@maxhealthcare.com) | सम्पर्क : +९१ ९८०३३३६६०

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंदीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष  
कंपनी कानून, २०१३ के खंड २३० से २३२ के मामले में और

क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड  
(सीआईएन : U24239HR2002PLC129635)  
(याचिकाकर्ता कंपनी १/हस्तांतरितकर्ता कंपनी)  
और  
जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड  
(सीआईएन : U85191HR2012PLC129639)  
(याचिकाकर्ता कंपनी २/हस्तांतरितर्ता कंपनी)  
और उनके संबंधित भागधारक एवं लेनदार इनके बीच

सी. पी. (सीएफ) नं. ३२/सीएचडी/एचआरआव/२०२५,  
सी.ए. (सीएफ) नं. २४/सीएचडी/एचआरआव/२०२५ से संबंधित  
याचिका की सूचना

सूचना दी जा रही है कि, कंपनी कानून, २०१३ के खंड २३० से २३२ के तहत क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी १/हस्तांतरक कंपनी") पंजीकृत कार्यालय का पता : मॅस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, ब्लॉक बी, सुरांत लोक, फेज १, गुरुग्राम, हरयाणा - १२२ ००१ और जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी २/हस्तांतरितर्ता कंपनी") पंजीकृत कार्यालय का पता : मॅस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, ब्लॉक बी, सुरांत लोक, फेज १, गुरुग्राम, हरयाणा - १२२ ००१ एवं उनके संबंधित भागधारक एवं लेनदार (इसमें आगे याचिकाकर्ता कंपनी के तौर पर उल्लिखित) इनके बीच विलीनीकरण योजना की मंजूरी हेतु याचिकाकर्ता कंपनीयों द्वारा दि. ३१.०७.२०२५ को संयुक्त याचिका पेश की गई थी और यह याचिका सुनवाई हेतु समसमानीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंदीगढ़ बेंच इनके समक्ष दि. १८.०९.२०२५ को निश्चित की गई है। इस याचिका को वदी आप विधिच कना इच्छुक हो तो आप याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास आपके हेतु की सूचना आपके और आपके बिकल द्वा़र हस्ताक्षरित करते हुए इस सूचना के साथ, विरोध की पारम्परगी एवं प्रतिज्ञापत्र की कापी इनके साथ याचिका की सुनवाई को निश्चित की गई तिथि से कमसे कम दो दिनों के भीतर पेश करें। यदि किसी व्यक्ति को याचिका की कापी आवश्यक हो तो उनके द्वारा लिए आवश्यक शुल्क प्रदान करने पर निम्न स्वाक्षरीकर्ता द्वारा पेश की जाएगी।

चंद्रशेखरन असोसिएट्स  
(याचिकाकर्ता कंपनी १ के अधिकृत प्रतिनिधि)  
११ - एफ, पॉकट - X, मयूर विहार,  
फेज - १, नई दिल्ली- ११००११,  
दूरभाष : ०११-२२७०५५४४

### फॉर्म-जी

### एससीआर में रियल एस्टेट

में कार्यरत मलतीहार रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए  
रुचि की अभिव्यक्ति लिए निमंत्रण  
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के लिनियम 36ए उच विनियम (1) के अधीन)

क्र	संबंधित विवरण	कंपनी विवरण
1.	पैनालीआईएफएएलसी नंबर के साथ कारपोरेट डेनदार का नाम	कंपनी विवरण प्राइवेट लिमिटेड CIN: U70109DL2008PTC178745 PAN: AAFCMS934K
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकृत कार्यालय: 676, भुगत प्लान गेट, चावडी बाजार, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली, भारत-110006 <a href="https://corpmailna.in/">https://corpmailna.in/</a>
3.	वेबसाइट का यूआरएल	
4.	उप सूचन का विवरण जहां अधिकतम अचल संबंधित रिखा है:	कंपनी रिखा एस्टेट व्यवसाय में लगी हुई है और परियोजना यहां रिखा है: खस्ता रिखा 61/70,71,72,74 इन्फर्नोयूर गांव, सीनिया रिखा पुराना बंद, लोनी, गांधीबाजार-20102 (ड्रैफ्टिंग रिहा के पास।)
5.	मुख्य उपनदी/वेबसाई को ख्याति क्षमता	परियोजना में परत/इक्वायि ऑफिक रूप से निर्मित है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रस्तावित क्रेडिट की संख्या 220 है और सुविधाजनक दुकानें 5 दुकानें हैं।
6.	फिखल वित्तीय वन में बचे गए मुख्य उपनदी/वेबसाई की माता और मुख्य	कंपनी रिखा एस्टेट के कारोबार में लगी हुई है और वर्तमान में उसके पास केवल एक परियोजना है जिसका नाम "ताज हाउटर्स" है, जो आंशिक रूप से निर्मित है और ऐसा लगता है कि निर्माण कार्य लगभग चार साल पहले बंद हो गया था।
7.	कारणार/कर्मचारियों की संख्या	द्वान
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची १ के स), ब्रह्मदाताओं की सूची सहित अन्य विवरण यहां अनुसंधान पर उपलब्ध है।	विवरण <a href="mailto:cirp.malia@gmail.com">cirp.malia@gmail.com</a> पर प्रस्ताव पेसेवर से अनुसंधान पेकेटर मांग जा सकता है।
9.	कोड की पता 25(1)(एए) के अधीन प्रस्ताव आदेशों के लिए प्रस्ताव पर उपलब्ध है;	विवरण <a href="mailto:cirp.malia@gmail.com">cirp.malia@gmail.com</a> पर प्रस्ताव पेसेवर से अनुसंधान पेकेटर मांग जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	25.08.2025
11.	प्रस्तावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	09.09.2025
12.	अंतिम सूची पर आजीविक के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	19.09.2025
13.	प्रस्तावित प्रस्ताव आवेदकों को अंतिम सूची जारी करने की तिथि	24.09.2025
14.	प्रस्तावित आवेदकों से सूचना प्राप्त, मूल्यांकन सारणी, प्रस्ताव बीना हेतु अनुसंधान जारी करने की तिथि	24.10.2025
15.	प्रस्ताव बीना हेतु अनुसंधान जारी करने की तिथि	
16.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ईमेल आईडी	<a href="mailto:cirp.malia@gmail.com">cirp.malia@gmail.com</a>
17.	एयरपोर्ट्स के रूप में कारपोरेट डेनदार को पंजीकरण रिहा का विवरण	कारपोरेट डेनदार सूच, लघु और मध्यम व्यव संगठन के साथ पंजीकृत है (उपम पंजीकरण संख्या उद्यम-यूडी-29-0146634)

ह./-  
अनुराग निर्भय  
प्रस्ताव पेसेवर  
कृते मलतीहार रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

रजि. नं. IBBI/IPA-001/PI-P00870/2017-2018/11468  
पंजीकृत पता: 204, सागर प्लाजा, प्लॉट नंबर 19, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092  
दिनांक: 05.08.2025  
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं. 5 ऋण वसूली न्यायाधिकरण 600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हुगुना सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ-228007 (न्यायाधिकरण क्षेत्र <span> </span> : उत्तर प्रदेश का भाग) उत्तर दाखिल करने तथा उपस्थित होने के लिए प्रकाशन द्वारा सम्मन आए सं. 249/2025 पंजाब रैंड सिव बैंक बनारस श्री बनारस सिंह यादव एवं अन्य सेवा में, 1. श्री बलराम सिंह यादव (कर्मचारी) (वरक) पुत्र श्री फूल चंद यादव, पता: प्लेट संख्या ए/२/९०4, गंगा तट, टावर-4, सेक्टर-1३7, यूनिवर्सिटी रोड, नोएडा, जी.डी. नगर, उत्तर प्रदेश-201301. 2. श्रीमती प्रीति यादव (सह-कर्मचारी) (वरक) पुत्री श्री बलराम सिंह यादव, पता: प्लेट संख्या ए/२/९०4, गंगा तट, टावर-4, सेक्टर-1३7, यूनिवर्सिटी रोड, नोएडा, जी.डी. नगर, यू.पी.-201301. 3. श्री योगेश राणा (पारदर्शक) (वरक) पुत्र श्री सेखरच सिंह यादव <span> </span> : एफ-3१, एम.आई.सी. प्रताप विहार गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201009 उपरोक्त आवेदन में आप से यह मांग की जाती है कि यह सम्मन प्रकाशित होने के बाद आप अपना उत्तर पेश कर चुक होंगे, दो सेट्स में, दस्तावेजों तथा सम्पत्तियों (यदि कोई है) सहित, उसकी प्रति आवेदक को अथवा उसके कानूनी सलाहकार/विधिवत अधिकृत एजेंट को भेजने के बाद, व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंट या लीगल प्रैक्टिसर के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद इस न्यायाधिकरण में 11-09-2025 को पूर्ण, 10.30 बजे उपस्थित हों, जिसमें अस्मक रकम पर आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ
---

## जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड

सीआईएन : U85191HR2012PLC129639  
पंजीकृत कार्यालय : मॅस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, ब्लॉक बी, सुरांत लोक, फेज १, गुरुग्राम, हरयाणा, भारत - १२२ ००१

ई-मेल : [secretarial@maxhealthcare.com](mailto:secretarial@maxhealthcare.com) | सम्पर्क : +९१ ९८०३३३६६०

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंदीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष  
कंपनी कानून, २०१३ के खंड २३० से २३२ के मामले में और

क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड  
(सीआईएन : U24239HR2002PLC129635)  
(याचिकाकर्ता कंपनी १/हस्तांतरणकर्ता कंपनी)  
और  
जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड  
(सीआईएन : U85191HR2012PLC129639)  
(याचिकाकर्ता कंपनी २/हस्तांतरितर्ता कंपनी)  
और उनके संबंधित भागधारक एवं लेनदार इनके बीच

सी. पी. (सीएफ) नं. ३२/सीएचडी/एचआरआव/२०२५,  
सी.ए. (सीएफ) नं. २४/सीएचडी/एचआरआव/२०२५ से संबंधित  
याचिका की सूचना

सूचना दी जा रही है कि, कंपनी कानून, २०१३ के खंड २३० से २३२ के तहत क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी १/हस्तांतरक कंपनी") पंजीकृत कार्यालय का पता : मॅस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, ब्लॉक बी, सुरांत लोक, फेज १, गुरुग्राम, हरयाणा - १२२ ००१ और जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी २/हस्तांतरितर्ता कंपनी") पंजीकृत कार्यालय का पता : मॅस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, ब्लॉक बी, सुरांत लोक, फेज १, गुरुग्राम, हरयाणा - १२२ ००१ एवं उनके संबंधित भागधारक एवं लेनदार (इसमें आगे याचिकाकर्ता कंपनी के तौर पर उल्लिखित) इनके बीच विलीनीकरण योजना की मंजूरी हेतु याचिकाकर्ता कंपनीयों द्वारा दि. ३१.०७.२०२५ को संयुक्त याचिका पेश की गई थी और यह याचिका सुनवाई हेतु समसमानीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंदीगढ़ बेंच इनके समक्ष दि. १८.०९.२०२५ को निश्चित की गई है। इस याचिका को वदी आप विधिच कना इच्छुक हो तो आप याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास आपके हेतु की सूचना आपके और आपके बिकल द्वा़र हस्ताक्षरित करते हुए इस सूचना के साथ, विरोध की पारम्परगी एवं प्रतिज्ञापत्र की कापी इनके साथ याचिका की सुनवाई को निश्चित की गई तिथि से कमसे कम दो दिनों के भीतर पेश करें। यदि किसी व्यक्ति को याचिका की कापी आवश्यक हो तो उनके द्वारा लिए आवश्यक शुल्क प्रदान करने पर निम्न स्वाक्षरीकर्ता द्वारा पेश की जाएगी।

चंद्रशेखरन असोसिएट्स  
(याचिकाकर्ता कंपनी २ के अधिकृत प्रतिनिधि)  
११ - एफ, पॉकट - X, मयूर विहार,  
फेज - १, नई दिल्ली- ११००११,  
दूरभाष : ०११-२२७०५५४४

तिथि : ०५.०८.२०२५  
स्थान : गुरुग्राम



टीबीओ टेक लिमिटेड

सीआईएन: L74999DL2006PLC155233

पंजीकृत कार्यालय: ई-78, सायबु एक्सटेंशन पार्ट I, नई दिल्ली-110049, भारत

फोन नंबर: +91-124-4998999; ईमेल: [corporatesecretarial@tbo.com](mailto:corporatesecretarial@tbo.com), वेबसाइट: [www.tbo.com](http://www.tbo.com)

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (एकल एवं समेकित)

कंपनी के निदेशक मंडल ने 04 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) ("परिणाम") को मंजूरी दी।

समीत समीक्षा रिपोर्ट के साथ परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर उपलब्ध है और कंपनी की वेबसाइट [www.tbo.com](http://www.tbo.com) पर भी पोस्ट किए गए हैं, जिसे क्विक रेसपॉन्स कोड स्कैन करके देखा जा सकता है।

टीबीओ टेक लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-  
अंशुसू निषानन  
संयुक्त प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 01112570

हस्ता./-  
गौरव मंगराम  
संयुक्त प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 00446482

 <b>जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड</b> सीआईएन: L35911HR1965PLC004485 पंजीकृत कार्यालय: जय सिंगर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर-135001, हरियाणा कोर्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 408, चौथी मंजिल, टावर-बी, वाटिका माइंडसेक, सेक्टर-27डी, एनएच2, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा), दूरभाष-0129-4006885, वेबसाइट: <a href="http://www.jaispring.com">www.jaispring.com</a> ईमेल आईडी: <a href="mailto:investor.relations@jaispring.com">investor.relations@jaispring.com</a> सूचना आईडीपीएफ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईडीपीएफ) डीमैट खाते में वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिम) की गैर मुनावेय और दावा न की गई लाभांश राशि और कंपनी के इंडिकेटी शेयरों का हस्तांतरण। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(६) और (6) के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, खानागार और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के नियम 5 और 6 के अनुसार, कंपनी को अनिवार्य रूप से सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईडीपीएफ) में स्थानांतरित करना आवश्यक है। कंपनी को ऐसे सभी शेयर भी आईडीपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित करने होंगे, जिसके संबंध में शेयरधारकों द्वारा गुप्तगार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है। आईडीपीएफ में स्थानांतरित होने के बाद, दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी को खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। तदनुसार, निम्नलिखित को आईडीपीएफ खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है:	<b>आईडीपीएफ में स्थानांतरण का विवरण</b> दस्तावेजित लाभांश वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिम) 30 अक्टूबर, 2025 13 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले
<b>आईडीपीएफ में स्थानांतरण की तिथि</b> आईडीपीएफ में स्थानांतरण करने वाली तिथि आईडीपीएफ में स्थानांतरण करने वाली	



ASBA has to be availed by all the investors. UPI may be availed by (i) Individual Investors Portion. (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to Rs. 5,00,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section **‘Issue Procedure’** on page no. 297 of the Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India (“AIBI”) and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35> and <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=43>, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in). UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Banks for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018 as amended. For Issue related queries, please contact the BRLMs on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail id: [ipo.upi@npci.org.in](mailto:ipo.upi@npci.org.in).

In case of any revisions in the Price, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Offer is being made through the Fixed Price Issue, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the “SCRR”) read with Regulation 252 of SEBI ICDR Regulations, 2018, the Offer is being made for at least 25% of the post-offer paid-up Equity Share capital of our Company. The Offer is being made under Regulation 229(2) of Chapter IX of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 via fixed issue process All Bidders For details, see ‘Issue Procedure’ beginning on page no. 297 of the Prospectus.

**Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the Repositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay reselling from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants’ sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.**

**CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS:** For information on the main objects and other objects of our Company, see **“Our History and Certain Corporate Matters”** on page no. 179 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section **“Material Contracts and Documents for Inspection”** on page no. 339 of the Prospectus.

**LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA:** Limited by shares.

**AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE:** As on the date of Prospectus, the Authorized share Capital of the Company is Rs. 15,00,00,000/- (Rupees Fifteen Crores Only) divided into 1,50,00,000 (One Crore and Fifty Lakhs Only) Equity Shares of face value of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the issue Rs. 10,46,55,460.00/- (Rs. Ten Crores Forty-Six Lakhs and Fifty-Five Thousand Four Hundred and Sixty Only) divided into 1,04,65,546 (One Crore Four Lakhs Sixty-Five Thousand Five Hundred and Forty Six Only). For details of the Capital Structure, see **“Capital Structure”** on the page no. 73 of the Prospectus.

**NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:** Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company. Ms. Nishakumari Vicky Agrawal – 100 equity shares, Ms. Dabhi Dharmshastiben V. 100 equity shares, Mr. Vishnu Kumar 100 equity shares, Mr. Vicky Mahadev Agrawal 100 equity shares, Mr. Dabhi Vipul Gobarbhaj 100 equity shares, Ms. Prajapati Hetalben Giridharilal 9,400 equity shares and Mr. Giridharilal Prajapat – 100 equity shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see **“History and Certain Corporate Matters”** on page no. 179 of the Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see **“History and Certain Corporate Matters”** on page no. 179 of the Prospectus.

**LISTING:** The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME platform of NSE (“NSE Emerge”). Our Company has received an “In- principle” approval from the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated May 07, 2025. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Prospectus has been submitted for registration to the ROC on August 04, 2025 and Prospectus shall be filed with the ROC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (“SEBI”):** Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page no. 276 of the Prospectus.



**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (“NSE EMERGE”) (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the ‘Disclaimer Clause of NSE.

**GENERAL RISK:** Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have

not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to **“Risk Factors”** on page no. 30 of the Prospectus.

**TRACK RECORD OF LEAD MANAGER:** The LM associated with the Issue has handled 11 Public Issues in the past three years out of which 3 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date

Name of LM	Total Issue in last 3 years	Issue closed below IPO Price on listing date
Fast Track Finsec Private Limited	0	11

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <b>Fasttrack Finsec</b> Category-I Merchant Banker	 <b>CAMEO</b>	<b>Ms. Sashi Kala Bhutra,</b> Company Secretary & Compliance Officer <b>Address :</b> 05, S. No-245/B, Plot-19, T.P.S. 56, Free Way Trade Centre, Nr. A-One Hotel, N.H.-8, Narol Ganj, Narol, Ahmadabad City, Daskroi, Gujarat, India, 382405 <b>Tel.:</b> +91 87808 46963   <b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@medisteph.com">info@medisteph.com</a> <b>Website:</b> <a href="http://www.medisteph.com">www.medisteph.com</a>
<b>FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED</b> <b>Address:</b> Office No. V-116, 1 <sup>st</sup> Floor, New Delhi House, 272, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 <b>Tel:</b> +91 11 43029809; <b>Email:</b> <a href="mailto:mb@ftfinsec.com">mb@ftfinsec.com</a> <b>Contact Person:</b> Ms. Sakshi <b>Website:</b> <a href="http://www.ftfinsec.com">www.ftfinsec.com</a> <b>SEBI registration number:</b> INM000012500 <b>CIN:</b> U65191DL2010PTC200381	<b>CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED</b> <b>Address :</b> “Subramaniam Building”, No. 1, Club House Road, Chennai-600002 <b>SEBI Registration No.:</b> INR000003753 <b>Contact Person:</b> Ms. K. Sreepriya <b>Email:</b> <a href="mailto:ipo@cameoindia.com">ipo@cameoindia.com</a> <b>Website:</b> <a href="http://www.cameoindia.com">www.cameoindia.com</a> <b>Tel No.:</b> +91-44-40020700/28460390 <b>CIN:</b> U74899DL1995PTC071324	<i>Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.</i>

**AVAILABILITY OF PROSPECTUS:** Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the website of the SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), website of company at [www.medisteph.com](http://www.medisteph.com), the website of the Lead Manager to the Issue at [www.ftfinsec.com](http://www.ftfinsec.com), and websites of stock exchange at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS:** A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, LM and NSE at [www.medisteph.com](http://www.medisteph.com), [www.ftfinsec.com](http://www.ftfinsec.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATI ON FORMS:** Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Medistep Healthcare Limited (Telephone: 91 87808 46963) **Lead Manager:** Fast Track Finsec Private Limited (Telephone: +91-11-43029809). Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

**SYNDICATE MEMBER:** N.A.

**BANKER TO THE ISSUE/ ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK:** ICICI Bank Limited.

**SPONSOR BANKS:** ICICI Bank Limited

**UPI:** UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

**All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.**

**Place:** Ahmedabad

**Date:** August 04, 2025

**Disclaimer:** Medistep Healthcare Limited proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Prospectus dated August 04, 2025 has been filed with the Registrar of Companies, Ahmedabad and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of the SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), website of NSE Emerge at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and is available on the websites of the LM at [www.ftfinsec.com](http://www.ftfinsec.com). Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Prospectus including the section titled **“Risk Factors”** beginning on page no. 30 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **“Securities Act”**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in ‘offshore transactions’ in reliance on Regulation “S” under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

## क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड

सीआईएन : U24239HR2002PLC129635  
पंजीकृत कार्यालय : मॅक्स हॉस्पिटल, गुल्शाम, ब्लॉक बी, सुरागत लोक, फेज १, गुल्शाम, हरयाणा, भारत – १२२ ००१.  
ई-मेल : [secretarial@maxhealthcare.com](mailto:secretarial@maxhealthcare.com) | सम्पर्क नं. +९१ ९८७३३३६५०

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंदीगढ़ बेंच, चंदीगढ़ के समक्ष  
कंपनी कानून, २०१३ के खंड २३० से २३२ के मामले में और

क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड  
(सीआईएन : U24239HR2002PLC129635)  
(याचिकाकर्ता कंपनी १ / हस्तांतरणकर्ता कंपनी)  
और

जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड  
(सीआईएन : U85191HR2012PLC129639)  
(याचिकाकर्ता कंपनी २/हस्तांतरिती कंपनी)  
और उनके संबंधित भागधारक एवं लेनदार  
इनके बीच

सी. पी. (सीएन) नं. ३२/सीएचडी/एचआरवाय/२०२५,  
सी.ए. (सीएन) नं. २४/सीएचडी/एचआरवाय/२०२५ से संबंधित

### याचिका की सूचना

सूचना दी जा रही है कि, कंपनी कानून, २०१३ के खंड २३० से २३२ के तहत **क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड** (“याचिकाकर्ता कंपनी १/हस्तांतरक कंपनी”) पंजीकृत कार्यालय का पता : मॅक्स हॉस्पिटल, गुल्शाम, ब्लॉक बी, सुरागत लोक, फेज १, गुल्शाम, हरयाणा – १२२ ००१ और **जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड** (“याचिकाकर्ता कंपनी २/हस्तांतरिती कंपनी”) पंजीकृत कार्यालय का पता : मॅक्स हॉस्पिटल, गुल्शाम, ब्लॉक बी, सुरागत लोक, फेज १, गुल्शाम, हरयाणा – १२२ ००१ एवं उनके संबंधित भागधारक एवं लेनदार (इससे आगे याचिकाकर्ता कंपनी के तौर पर उल्लेखित) इनके बीच विलीनीकरण योजना की मंजूरी हेतु याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा दि. ३१.०७.२०२५ को संयुक्त याचिका पेश की गई थी और यह याचिका सुनवाई हेतु समाननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंदीगढ़ बेंच इनके समक्ष दि. १८.०९.२०२५ को निश्चित की गई है। इस याचिका को यदी आप विरोध करना इच्छुक हो तो आप याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास आपके हेतु की सूचना आपके और आपके बिकल द्वा़र हस्ताक्षरित करते हुए इस सूचना के साथ, विरोध की पार्ष्वभूमि एवं प्रतिज्ञाव की कापी इनके साथ याचिका की सुनवाई को निश्चित की गई तिथि से कमसे कम दो दिनोंके भीतर पेश करें। यदी किसी व्यक्ति को याचिका की कापी आवश्यक हो तो उनके द्वारा लिए आवश्यक शुल्क प्रदान करने पर निम स्वाक्षरीकर्ता द्वारा पेश की जाएगी।

चंद्रशेखरन असोसिएट्स  
(याचिकाकर्ता कंपनी १ के अधिकृत प्रतिनिधि)  
११ – एफ, पॉस्ट- ४, मयूर विहार,  
फेज – १, नई दिल्ली- ११००११,  
दूरभाष : ०११-२२९८०५१४

### फॉर्म-जी

### एनसीआर में रियल एस्टेट

में कार्यरत मलीहा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए  
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु निमंत्रण  
(भारतीय दियाला और शोशन अथ्र्वामेंट ३६ (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दियाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 36ए उप विनियम (1) के अधीन)

क्र.सं.	संबंधित विवरण	कम्पनी
1.	पेन-वीआईएन/एलएमपी नंबर के साथ कार्रोरेट देनदार का नाम	कम्पनी रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड CIN:U71091DL2006PTC178745 PAN:AAFOM5934K
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकृत कार्यालय: 676, भवन विलगत गेट, चावडी बाजार, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली, भारत-110006
3.	वेबसाइट का यूआरएल	<a href="https://cirpmalhai.in/">https://cirpmalhai.in/</a>
4.	यस कम्पनी का विवरण जहां अधिकार अलग संबंधित स्थित है	कम्पनी रिकॉर्ड्स प्राइवेट व्यापार में लगी हुई है और परिचयना यहां स्थित है: कृपाय संकेत 61,70,71,72,74 इन्फोक्यूब गॉर्ग, सीनिया विहार पुस्तक शेड, सीनै, गाजियाबाद-201102 (ट्रेडिंका रिफ्रे के पास)।
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की व्यापित क्षमता	परिचयना में फ्लैट/इकाईओं आंशिक रूप से निर्मित हैं, उपग्रहय जनककारी के अग्रगत प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या 220 है और सुविधाजनक दुकानें उपलब्ध हैं।
6.	सिद्धते वित्तीय वर्ष में बचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	कम्पनी रिकॉर्ड्स प्राइवेट के कारोबार में लगी हुई है और वर्तमान में उसके पास केवल एक परिचयना है जिसका नाम "ताज हाइट्स" है, जो आंशिक रूप से निर्मित है और ऐसा लगता है कि निर्माण कार्य लगभग चार साल पहले चले गये था।
7.	कागज़ार/कर्मचारियों की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुवीचीके के माध्यम से)	विवरण cirp.malhai@gmail.com पर प्रस्ताव पेशेवर से अनुबंध भेजकर मांगा जा सकता है।
9.	कोड की धारा 25(2)(ए) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पक्षता पर उपलब्ध है.	विवरण cirp.malhai@gmail.com पर प्रस्ताव पेशेवर से अनुबंध भेजकर मांगा जा सकता है।
10.	आवेदकों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ईमेल आईडी	25.08.2025
11.	प्रस्तावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	04.09.2025
12.	अंतिम सूची पर आपावर्ती के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	09.09.2025
13.	प्रस्तावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	19.09.2025
14.	प्रस्तावित आवेदकों के सूचना प्रदान, मूल्यांकन सामग्री, प्रस्ताव योजना हेतु अनुबंध जारी करने की तिथि	24.09.2025
15.	प्रस्ताव योजना के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	24.10.2025
16.	आवेदकों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ईमेल आईडी	cirp.malhai@gmail.com
17.	एकराजर्पाई के रूप में कार्रोरेट देनदार की पंजीकरण विधिति का विवरण	कार्रोरेट देनदार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मॉलगत के साथ पंजीकृत है (उद्यम पंजीकरण संख्या उद्यम-यूनि-29-0146634)

ह./-  
अग्रगम निर्णय  
प्रस्ताव पेशेवर  
कृते मलीहा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड  
रजि. नं. IBBI/IPA-001/IP-P00870/2017-2018/11468

दिनांक: 05.08.2025  
स्थान: नई दिल्ली  
पंजीकृत पता: 204, सागर प्लाजा, प्लॉट नंबर 19, हिडिस्ट्रू सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092

प्रपत्र सं. 5 ऋण वसूली न्यायाधिकरण 600/1, युनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मॉडर के निक्ट, लखनऊ-226007 (याचिकाकार क्षेत्र <span> </span> : उत्तर प्रदेश का भाग) उत्तर दाखिल करने तथा उपस्थित होने के लिए प्रकाशन द्वारा सम्मन ओर सं. 249/2025 दिनांक <span> </span> : 03-07-2025	पंजाब एंड सिंव बैंक बनाम श्री बलराम सिंह यादव एवं अन्य सेवा में: 1. श्री बलराम सिंह यादव (कर्जदार) (बचक) पुत्र श्री फूल चंद यादव, पता: प्लेट संख्या ९2/९04, 9वां तल, टावर-4, सेक्टर-1३7, पूर्वोक्त रॉयल पार्क, नोएडा, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश-201301. 2. श्रीमती प्रीति यादव (साह-कर्जदार) (बचक) पत्नी श्री बलराम सिंह यादव, पता: प्लेट संख्या ९2/९04, 9वां तल, टावर-4, सेक्टर-1३7, पूर्वोक्त रॉयल पार्क, नोएडा, जी.बी. नगर, यू.पी.-201301. 3. श्री योगेश राणा (पॉस्टर) (बचक) पुत्र श्री लेखचरण सिंह पता <span> </span> : एफ-31, एमआईजी. प्रताप विहार गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201009
उपरोक्त आवेदन में आप से यह मांग की जाती है कि यह सम्मन प्रकाशित होने के बाद आप अपना उत्तर प्रेषित रूप में, दो सेदम में, दस्तावेजों तथा शपथपत्रों (यदि कोई है) सहित, उसकी प्रति आवेदक को अथवा उसके कानूनी सलाहकार/विधित्ता अधिकृत एजेंट को भेजने के बाद, विवेचित रूप से या अपने विधित्ता अधिकृत एजेंट द्वा़र लाीगत प्रैटिशनर के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद इस न्यायाधिकरण में 11-09-2025 को पूर्ण, 10.30 बजे उपस्थित हों, जिसमें अस्सक रहने पर आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।	रजिस्ट्रार ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

## जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड

सीआईएन : U85191 HR2012PLC129639  
पंजीकृत कार्यालय : मॅक्स हॉस्पिटल, गुल्शाम, ब्लॉक बी, सुरागत लोक, फेज १, गुल्शाम, हरयाणा, भारत – १२२ ००१.  
ई-मेल : [secretarial@maxhealthcare.com](mailto:secretarial@maxhealthcare.com) | सम्पर्क नं. +९१ ९८७३३३६५०

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंदीगढ़ बेंच, चंदीगढ़ के समक्ष  
कंपनी कानून, २०१३ के खंड २३० से २३२ के मामले में और

क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड  
(सीआईएन : U24239HR2002PLC129635)  
(याचिकाकर्ता कंपनी १ / हस्तांतरणकर्ता कंपनी)  
और

जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड  
(सीआईएन : U85191HR2012PLC129639)  
(याचिकाकर्ता कंपनी २/हस्तांतरिती कंपनी)  
और उनके संबंधित भागधारक एवं लेनदार  
इनके बीच

सी. पी. (सीएन) नं. ३२/सीएचडी/एचआरवाय/२०२५,  
सी.ए. (सीएन) नं. २४/सीएचडी/एचआरवाय/२०२५ से संबंधित

### याचिका की सूचना

सूचना दी जा रही है कि, कंपनी कानून, २०१३ के खंड २३० से २३२ के तहत **क्रॉसले रेमेडीज लिमिटेड** (“याचिकाकर्ता कंपनी १/हस्तांतरक कंपनी”) पंजीकृत कार्यालय का पता : मॅक्स हॉस्पिटल, गुल्शाम, ब्लॉक बी, सुरागत लोक, फेज १, गुल्शाम, हरयाणा – १२२ ००१ और **जयपी हेल्थकेअर लिमिटेड** (“याचिकाकर्ता कंपनी २/हस्तांतरिती कंपनी”) पंजीकृत कार्यालय का पता : मॅक्स हॉस्पिटल, गुल्शाम, ब्लॉक बी, सुरागत लोक, फेज १, गुल्शाम, हरयाणा – १२२ ००१ एवं उनके संबंधित भागधारक एवं लेनदार (इससे आगे याचिकाकर्ता कंपनी के तौर पर उल्लेखित) इनके बीच विलीनीकरण योजना की मंजूरी हेतु याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा दि. ३१.०७.२०२५ को संयुक्त याचिका पेश की गई थी और यह याचिका सुनवाई हेतु समाननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंदीगढ़ बेंच इनके समक्ष दि. १८.०९.२०२५ को निश्चित की गई है। इस याचिका को यदी आप विरोध करना इच्छुक हो तो आप याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास आपके हेतु की सूचना आपके और आपके बिकल द्वा़र हस्ताक्षरित करते हुए इस सूचना के साथ, विरोध की पार्ष्वभूमि एवं प्रतिज्ञाव की कापी इनके साथ याचिका की सुनवाई को निश्चित की गई तिथि से कमसे कम दो दिनों के भीतर पेश करें। यदी किसी व्यक्ति को याचिका की कापी आवश्यक हो तो उनके द्वारा लिए आवश्यक शुल्क प्रदान करने पर निम स्वाक्षरीकर्ता द्वारा पेश की जाएगी।

चंद्रशेखरन असोसिएट्स  
(याचिकाकर्ता कंपनी २ के अधिकृत प्रतिनिधि)  
११ – एफ, पॉस्ट- ४, मयूर विहार,  
फेज – १, नई दिल्ली- ११००११,  
दूरभाष : ०११-२२९८०५१४

तिथि : ०५.०८.२०२५,  
स्थान: गुल्शाम

 <b>जमाना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड</b> <b>सीआईएन:</b> L35911HR1965PCLC004485 <b>पंजीकृत कार्यालय:</b> जय हिंमस रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर-135001, हरियाणा <b>कॉर्पोरेट कार्यालय:</b> यूनित नं. 408, चौथी मंजिल, टावर-बी, वाटिका माइंडस्कैप, सेक्टर-27डी, एनएच-2, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) <b>दूरभाष:</b> 0129-4006885; <b>वेबसाइट:</b> <a href="http://www.jaispring.com">www.jaispring.com</a> <b>ईमेल आईडी<span> </span>:</b> <a href="mailto:investor.relations@jaispring.com">investor.relations@jaispring.com</a>	<b>सूचना</b> <b>आईडीएफ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए निवेशक शिक्का और संरक्षण कोष (आईडीएफ) डीमैट खाते में तिथि वर्ष 2017-18 (अंतिम) की रिपोर्ट पेश और दावा न की गई लाभांश राशि और कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण।</b>
---	---

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 124(5) और (6) के साथ निवेशक शिक्का और संरक्षण निधि प्राधिकरण (शेक्का, शेक्का प्रशिक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (“नियम”) के नियम 5 और 6 के अनुसार, कंपनी को अनिवार्य रूप से सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्का और संरक्षण निधि (आईडीएफ) में स्थानांतरित करना आवश्यक है। कंपनी को ऐसे सभी शेयर की आईडीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित करने होंगे, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लाभांश प्राप्त वर्षों या उसके अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है। आईडीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित होने के बाद, दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। वंदराष्ट्र, निम्नलिखित को आईडीएफ खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है:

आईडीएफ में स्थानांतरण का विवरण	आईडीएफ में स्थानांतरित की गित तिथि	कंपनी को अपेक्षित जाने वाली दावा करने की तिथि
दावारहित लाभांश वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिम )	30 अक्टूबर, 2025	13 अक्टूबर, 2025 को या उसके पहले

व्यक्तिगत नोटिस पहले ही उन संबंधित शेयरधारकों को भेजे जा चुके हैं, जिनके शेयरों के साथ लाभांश उचित कार्रवाई करने के लिए रिक्त वर्ष 2025-26 के दौरान आईडीएफपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उपरचरणी हैं। कंपनी ने उन शेयरधारकों का विवरण भी अपनी वेबसाइट <https://www.jaispring.com> पर अपलोड किए गए हैं जिनके शेयर और लाभांश आईडीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने के लिए निगत हैं